



Women's Health at Work



परिवार नियोजन एनएसडब्ल्यू (Family Planning NSW) व कार्यकारी महिलाओं का स्वास्थ्य

Family Planning NSW प्रजनन व यौन स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ प्रदान करती है। उनके पास गर्भनिरोध, गर्भावस्था संबंधी विकल्प, यौन संचारित संक्रमण (STIs), लिंग-भेद व यौन संबंधी कार्य, माहवारी, रजोनिवृत्ति, आम स्त्री-रोग व योनी संबंधी समस्याओं, ग्रीवा की जाँच व स्तन संबंधी जागरूकता के विशेषज्ञ हैं।

किसी एक दिन में, रोग विशेषज्ञ ऐसे लोगों की समस्याएँ सुनते हैं, उनकी देख-भाल व इलाज करते हैं और सहायता देते हैं जो विविध पृष्ठभूमि के हैं और जो प्रजनन व यौन स्वास्थ्य संबंधी जटिल व कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

जो भी व्यक्ति परिवार नियोजन क्लिनिक आता है, वह बहुत ही गम्भीर निजी मामलों के बारे में बात करने के लिए आता है। ये रोग विशेषज्ञ हर व्यक्ति व हर कहानी को बिना निर्णय दिए सुनते हैं, जिससे ऐसे समाधान देने में मदद कर सकें जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी स्थिति में सही हो।

क्लीनिक में बात-चीत करने के लिए निःशुल्क अनुवाद सेवाएँ व अंग्रेज़ी के अलावा कई अन्य भाषाओं में अनेकों अनुवादित तथ्य-पत्र उपलब्ध हैं।

परिवार योजना क्लिनिक फ़ैयरफील्ड, ऐशफील्ड, पेनरिथ, न्यूकासल व डबो, इन 5 स्थानों में हैं, जिनमें कार्यकारी महिलाओं की सहूलियत के लिए, फ़ैयरफील्ड व ऐशफील्ड में मिलने का कुछ समय ऑफिस समाप्त होने के बाद व शनिवार सुबह को भी होता है।

यह जानकारी Family Planning NSW तथा प्रजनन व यौन स्वास्थ्य सेवा के साथ मिल कर तैयार की गई है:



जानकारी व रेफ़रल संबंधी सलाह के लिए फ़ोन पर बात करने के लिए NSW Talkline सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहती है।

1300 658 886

TTY (बधिरों के लिए) 8752 4360

मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना, वेबसाइट: www.fpnsw.org.au